

स्थूलहर कैप्सूल व पाउडर™



पैकिंग - 100 ग्राम

पेट घटायें व तोंद घटायें
मोटापा कम करें व वजन
घटायें व शरीर को हल्का
व चुस्त बनायें



पैकिंग - 60 कैप्सूल

तेज असर कारक हर्बल फार्मूला

यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है।

फार्मूला :- चिरायता 30 मिग्रा. बच 30 मिग्रा. नागर मोथा 30 मिग्रा. सुनाय पत्ती 30 मिग्रा मेथी 30 मिग्रा. मंजीठ 30 मिग्रा. त्रिफला 30 मिग्रा त्रिकुटा 30 मिग्रा. सत नींबू 30 मिग्रा. बंगरूम 30 मिग्रा. शुद्ध गंधक 30 मिग्रा. सुदर्शन 30 मिग्रा. जीरा स्याह 30 मिग्रा. काली तुलसी की पत्ती 30 मिग्रा. गिलोय 30 मिग्रा. बंसलोचन 30 मिग्रा. पनर्नवा 30 मिग्रा. एरन्ड के बीज 30 मिग्रा. गोरख मुण्डी 30 मिग्रा. पित्त पापड़ा 30 मिग्रा. बाय बिडंग 30 मिग्रा. शीतल चीनी 30 मिग्रा. रासना 30 मिग्रा.

उपयोग :- इस पाउडर से पेट साफ रहता है पेशाब खुलकर होता है और शरीर में हल्कापन होता है। एवं बादी व मोटापा को कम करता है। यह ब्लड प्रेशर और टायबिटीज में लाभदायक है।

सेवन विधि :- 3-3 ग्राम पाउडर दिन में तीन बार नींबू पानी से लेना चाहिए। कम से कम 40 दिन तक प्रयोग करना अनिवार्य है। तथा 2 कैप्सूल सुबह 2 कैप्सूल शाम को नींबू जल के साथ एक माह में 120 कैप्सूल खाने चाहिए। एक पैकिंग सिर्फ 15 दिन के लिए है।

परहेज :- लाल मिर्च, खटाई, गुड़, तेल चाय, चावल, बादी व गरिष्ठ भोजन नहीं खाना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में डा० एस. सी. गुप्ता से प्रातः 9 से 12 बजे तक मिलें।

वजन का अनुपात

10 वर्ष से 15 वर्ष तक की आयु में स्वास्थ्य बच्चों का वजन 40 से 50 किलो तक
15 वर्ष से 25 वर्ष तक की आयु में स्वास्थ्य के अनुसार वजन 45 से 55 किलो तक
25 वर्ष से 50 वर्ष तक महिला व पुरुष का स्वास्थ्य के अनुसार वजन 55 से 65 किलो तक होना चाहिए। इससे अधिक वजन हानिकारक है।

नोट :- प्रयोग के पूर्व अपना वजन करना न भूलें।



G.M.P Certified Company

मोटापा व तोंद कम करने का हर्बल फार्मूला

स्थूलहर

कैप्सूल व पाउडर

पेट घटायें, मोटापा व
वजन कम करें
शरीर को हल्का
व चुस्त बनायें

यह हाई ब्लड प्रेशर व डायबटीज में भी लाभप्रद है।

नोट:- एक माह में तीन किग्रा. से पाँच किग्रा. वजन कम करने में सहायक